

TEST CODE 6 1 4 3 0 1

FIAS – MGP 2023 – GS PAPER 4_FLT #4

Time Allowed : Three Hours
समय : तीन घंटे**ForumIAS**Maximum Marks : 250
अधिकतम अंक : 250**GENERAL STUDIES / सामान्य अध्ययन**

Name Of Candidate परीक्षार्थी का नाम	VISHNU SABIKUMAR		
Roll No./अनुक्रमांक	1910115488	Medium/माध्यम	English <input checked="" type="checkbox"/> हिंदी <input type="checkbox"/>
Center Code/परीक्षा केंद्र	Trivandrum	Date/दिनांक	

*Center Code : For Online - 1900 / Delhi : Karol bagh - 1901, ORN - 1902, Mukharji Nagar - 1903 / Patna : Boring Rd. - 2001 / Hyderabad : Jawahar Nagar - 2101

INDEX TABLE / अनुक्रमणिका			INSTRUCTION / अनुदेश	
Q. No. प्र.सं.	Max. Marks अधिकतम अंक	Marks Obtained प्राप्तांक	1. Please do furnish Name, Email, Roll No and Mobile in the answer sheet. कृपया उत्तर-पुस्तिका में नाम, ईमेल, रोल नंबर और मोबाइल नंबर भरें।	
1			2. There are TWELVE questions printed in ENGLISH & HINDI, all questions are compulsory. उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी/हिंदी में बारह प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।	
2			3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए निर्धारित अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं।	
3			4. Answers must be written in the medium authorized in the admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. उत्तर प्रवेश पत्र में अधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जो कि दिए गए स्थान में इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के कवर पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।	
4			5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum Answer Booklet must be clearly Struck off. प्रश्नों में शब्द सीमा, यदि निर्दिष्ट हो, का पालन किया जाए। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गये किसी भी पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को स्पष्ट रूप से काट दें।	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Total/कुल अंक	250		For Student Only / केवल परीक्षार्थी प्रयोग हेतु	
Evaluator's Discretion/मूल्यांकन कर्ता का विवेक :			Start Time/प्रारंभ करने का समय :	End Time/समाप्त करने का समय :
			11:25	2:27
Total Marks/कुल अंक :			Mode Of Examination/ परीक्षा की विधि :	Online/ऑनलाइन <input type="checkbox"/> Offline/ऑफलाइन <input checked="" type="checkbox"/>
*Examiner's Discretion is the marks awarded at the discretion of the examiner based on your overall impression, on the basis of (but not limited to) your handwriting, presentation, use of diagrams, flowcharts, facts and figures or absolutely anything that he/she liked in your copy. मूल्यांकन कर्ता का विवेक अंक, आपकी लिखावट, प्रस्तुति, आरेखों के उपयोग, फ्लोचार्ट, तथ्यों और आंकड़ों या समग्र रूप किसी अन्य विषय वस्तु, जो मूल्यांकन कर्ता को आपकी कॉपी में पसंद आयी के आधार पर (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) पर दिए गए अंक हैं।			For Office Use Only / केवल कार्यालय प्रयोग हेतु	
			ECN CODE/ ईसीएन कोड :	Evaluation Date/ मूल्यांकन तिथि :
			① ② ③ ④ ⑤	

Note: You can discuss your evaluated copy with the Mentor. Raise a ticket from your portal to schedule a mentor call or visit the offline centre to meet mentor (all 7 days, Timings – 11 AM to 6 PM). Further if you are unsatisfied with the evaluation, you can seek re-evaluation of the copy.

EXAMINER'S REMARKS

CRITERIA FOR THE FEEDBACK SECTION AT THE END OF EACH QUESTION

1. **AWIS = Answered What is Asked.** This means whether you have addressed the core demand of the question or not. Addressing the core demand of the question gets you an objectively fair score. It is examiner's perception if you have understood the question and if you know the answer in the first place. Creative answer writing, sometimes missing the core demand, may fetch very high or very low scores, and exposes your answer to the subjectivity of the examiner.
2. **CD & VA = Content Density & Value Addition.** Examiner will evaluate the quality and quantity of your content in the answer. In the same word limit and space limit have you (a) written what is asked (b) gone beyond what is asked (c) enriched answers through combination of (but not all!) suggestions, ideas, quotes, flowcharts, diagrams, facts and figures, data etc. This affects objective components of assessment.
3. **S & F = Structure & Flow =** Whether you have structured your answer properly or not. Whether the answer has been broken into parts and sub-parts and each part has been addressed appropriately or not. Whether the flow of the answer is maintained. Affects both subjective and objective components of assessment.
4. **P & R =** How your answer performs on the criteria of **presentation, ease of read, clarity and apparent effort** in writing the answer. This affects the subjective components of assessment.

Section - A

Q.1) a) The influence of ethical principles on shaping socially responsible behavior is widely acknowledged. How do ethical values facilitate individuals in cultivating a proactive and constructive attitude towards fulfilling their social responsibilities? Can the subjective nature of ethical principles lead to divergent attitudes regarding social responsibility?

(10 marks, 150 words)

सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार को आकार देने पर नैतिक सिद्धांतों के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। नैतिक मूल्य व्यक्तियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सक्रिय और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में कैसे सुविधा प्रदान करते हैं? क्या नैतिक सिद्धांतों की व्यक्तिपरक प्रकृति सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकती है?

(10 अंक, 150 शब्द)

Ethical principles or principles of ethics can be influenced onto people using different agents like family, school, friends, role models to cultivate a proactive attitude towards fulfilling social responsibility.

Eg - PM Modi as a role model to ensure people take vaccines.

Integrity ensures we walk the talk. Integral behavior is the key to a constructive attitude. It motivates us to fulfill our social responsibility - Eg -

Ashok Khemka fulfilled his responsibility by reforming society without taking bribes.

Compassion, Empathy and responsibility shows our duty to fellow human beings. The innate nature of humans ensure we are motivated to fulfil the social responsibility of protecting the life of others. - Eg - pushing an accident victim to hospital.

Subjective nature of ethical principles can lead to divergent attitudes.
Eg → some tribal societies see child marriage as an ethical idea, thus having divergent attitude to child marriage.

However, the universal human ethical values like Equality, dignity, Respect, integrity ensure we treat humans as an ends and follow the set rules & standards adiligently. It is ethical principles & their adherence which upholds the society & rules without leading to anarchy.

Feedback

(For OFFICE use only)

	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

b) Write short notes on the following:

(10 marks, 150 words)

- (i) Moral equilibrium
- (ii) Emotional strength
- (iii) Ethical pluralism
- (iv) Moral courage
- (v) Ethical fading

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें :

(10 अंक, 150 शब्द)

- (i) नैतिक साम्य
- (ii) भावनात्मक प्रबलता
- (iii) नीतिपरक बहुलवाद
- (iv) नैतिक साहस
- (v) नीतिपरक क्षीणनता

(i) Moral equilibrium - refers to a situation where our actions are congruent to the morals and values we have.

Eg → I value punctuality & I reach on time
Moral congruence equilibrium.

Lack of the same leads to crisis of conscience & guilt.

(ii) Emotional strength - refers to strength of emotions to motivate our actions & our ability to control our emotions. Emotional strength helps us to prevent taking decisions at heat of the moment.

(iii) Ethical pluralism - refers to multiple ethical values and principles coexisting together. There is no set order or hierarchy of ethical values in pluralism as all values are accepted & equal to each other. Helps in building an inclusive society.

(iv) Moral courage - courage to stand by one's morals. Leads to integrity and courage of conviction. Displayed by great leaders like Gandhi, Mandela. An important characteristic of a non partisan bureaucracy.

(v) Ethical fading - withdrawal or slow sliding back of ethical values & principles due to factors like lack of incentive. Large scale ethical fading can lead to chaos and disorder in society. Eg State of nature.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



Q.2) a) Through their actions, interactions, and teachings, schools have the power to mold the moral compass of the next generation. In this perspective, discuss the significance of value-based education in preparing the youth to address the contemporary challenges of society.

(10 marks, 150 words)

अपने कार्यों, पारस्परिक व्यवहार और शिक्षाओं के माध्यम से, स्कूलों में अगली पीढ़ी के नैतिक ढांचे को ढालने की शक्ति होती है। इस परिप्रेक्ष्य में, युवाओं को समाज की समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में मूल्य-आधारित शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

Schools are an important agents of socialisation enabling inculcation of values & morals among children gives they spend nearly 7-8 hours in school daily.

The events like Republic Day Independence day are actions of school inculcating potterations. Interactions among students & friends & teachers develop the value of tolerance, respect & reverence.

The teachings ensure scientific rationale & reason among students.

Value based education can help schools to build capable youths to address the challenges of society.

- 1) Stories of Buddha can ensure non attachment reducing greed & lust, reducing conflicts like Russia Ukraine.
- 2) Lessons on compassion and empathy help students to see the sufferings of poor thus converting them to agents of change.
- 3) Integrity through Gandhi's lifestyle can ensure trust and confidence in society, resolving issues like the one in Manipur.
- 4) Jainism unculcating non violence can solve issues of genocide & killings when conflicts like in Sudan occur.

APT Abdul Kalam had said schools & teachers as one of the pillars for building a powerful & ethical nation.
He was correct as school plays a crucial role in moulding the generations after generation.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	⊙	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

b) What do you understand by the term 'situation ethics'? Critically analyze its strengths and weaknesses in making moral judgements. (10 marks, 150 words)

'स्थिति नैतिकता' शब्द से आप क्या समझते हैं? नैतिक निर्णय लेने में इसकी शक्तियों और कमजोरियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

Situation ethics refers to ethical standards and principles which vary from situation to situation to elicit the best possible outcomes.

Strengths of situation ethics

It helps in making moral judgements by

- 1) ensuring situation specific inputs are received to make critical decisions.
- 2) acknowledges the unique situations of marginalised people, helping make a decision based on compassion & empathy.
eg- care ethics.
- 3) use of emotional intelligence in situation ethics can help take better decisions by understanding the emotions of others & what they need.

However there are some issues and weaknesses, due to some

- 1) may lead us from absolving from rule of law and duty - eg leaking confidential corruption report to media due to superiority pressure.
- 2) Might lead to fall in well being, especially for women as women face discrimination in most of the situations.
- 3) Might go against universal human values of equality, justice, liberty etc.

Therefore, a high emotional intelligence is required to ensure balance b/w situational & universal ethics to ensure best ethical outcome using right means to the people.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	⊙	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

Q.3) a) Maintaining traditional bonds and familial relationships in an increasingly globalized world requires personal relationships to be governed by ethical principles. Discuss.

(10 marks, 150 words)

तेजी से बढ़ती वैश्विक दुनिया में पारंपरिक बंधनों और पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रिश्तों को नैतिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

The families are seeing a breakdown in the current era. Though globalisation has reduced the distance b/w people it has increased the distance b/w hearts. Therefore personal relations need to be governed by ethical principles.

Respect for elderly would enable the young to connect with their grandparents in a world where they are lonely & alone.

Contentment (संतोष) in life would allow people to enjoy the office, enjoy the family time. Dinnery time would be filled with conversations rather than texts. Contentment would prevent people from running behind more wealth.

Compassion (Karuṇā) would ensure that family members support each other during times of crisis. Family & brothers can take learnings from Pandavas who stood by each other during distress.

Goodwillness & lack of envy is important to avoid competition within family members. sense of belongingness would allow the family members to see each member's success as success of the family.

Our epics like Mahabharata, Ramayana are stories of ideal families. Though there were small issues but family stood by each other during needs. Value education through grandparent by retelling stories from epics can ensure next generation values these bonds for a functional family.

Feedback

(For OFFICE use only)

	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table.			
Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

b) "Why should a man be moral? Because it strengthens his will." - Swami Vivekanand. In this perspective, discuss the significance of morality for bringing efficiency and effectiveness in public administration. Do you think moral rigidity can be a hindrance in good governance?

(10 marks, 150 words)

"मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह उसकी इच्छाशक्ति को मजबूत करता है।" - स्वामी विवेकानन्द। इस परिप्रेक्ष्य में, लोक प्रशासन में दक्षता और प्रभावशीलता लाने के लिए नैतिकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि नैतिक कठोरता सुशासन में बाधा बन सकती है?

(10 अंक, 150 शब्द)

Morality increases the quality
of mind and character increasing the
strength of the mind. With a strong mind,
comes a strong body. This can be useful
for cultivating an efficient & effective public
administration.

Morality through integrity
can ensure administration does what it is
supposed to do. Commitment to provide
some bound results due to integrity & citizens
character can ensure effectiveness & efficiency in
administration.

Punctuality is yet another moral
helping administration to efficiently & effectively
utilise their time. It ensures maximum
time for public service, helping

serve the public in longer.

Morality urges the person to act, to resolve the issues of people. Morality like compassion, empathy can motivate a person to solve the issues of the person because we don't like to see others in pain.

However sometimes too much moral rigidity can be a hindrance of person who excessively focuses on rules & hierarchy can lead to delays in decision making. It is also due to administrative chain of command stretching a long distance.

In order to avoid this issue & dilemma, the govt ramp up with Mission Karmayogi to & e-governance to reduce rules & increase role & inculcate morality through value based training.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS

Q.4) a) Various practices and policies are implemented to uphold transparency, fairness, and accountability within administrative systems, encompassing both advantageous and disadvantageous aspects for the stakeholders involved and the overall administrative framework. Explore the ethical considerations that arise from the design and implementation of these administrative practices aiming to foster effective governance. (10 marks, 150 words)

प्रशासनिक प्रणालियों के भीतर पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रथाओं और नीतियों को लागू किया जाता है, जिसमें शामिल हितधारकों और समग्र प्रशासनिक ढांचे के लिए लाभप्रद और नुकसानदेह दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। प्रभावी शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन प्रशासनिक प्रथाओं के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले नैतिक विचारों का अन्वेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

Recently government has introduced e-governance - use of ICT tech to ensure transparency, fairness & accountability within the government. It has both advantages and disadvantages.

advantage	disadvantage
<ul style="list-style-type: none"> 1) proper utilization of resource 2) last mile delivery 3) reduced corruption 	<ul style="list-style-type: none"> 1) uneven access due to different capacities 2) digital illiteracy

Due to advantage & disadvantage there are ethical concerns that need to be factored.

Ethical considerations

- 1) Ensure equal access to governance through equal infrastructure (Bharat Net)
- 2) Capabilities building needed through digital literacy course (Sen's approach)
- 3) Privacy concerns needed through Data Protection Bill.
- 4) Vernacular language to make governance more accessible to grass roots.
- 5) Goal of Antyodaya to be ensured by making governance reach at door steps of vulnerable

Therefore resource allocation must factor in such considerations while formulation of governance policies

Ethical considerations can help ensure Sustained governance systems within the country.

Feedback

(For OFFICE use only)

	⊙	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

b) Civil servants who embody emotional intelligence exhibit a profound understanding of the human aspect of governance, enabling them to cultivate meaningful relationships, foster cooperation, and drive positive change. Examine ways in which Emotional Intelligence can be inculcated in civil servants. (10 marks, 150 words)

सिविल सेवक जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं, शासन के मानवीय पहलू की गहन समझ प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे सार्थक रिश्ते विकसित करने, सहयोग को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। उन तरीकों की परीक्षण कीजिए जिनसे सिविल सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है। (10 अंक, 150 शब्द)

Emotional intelligence refers to ability to understand ~~is~~, comprehend regulate one's own emotions & others' emotions, contextualising with the social surroundings & settings. Given civil servants deal with large no of people, they need to develop High EI.

Understanding people's situations including those who come for help & colleagues working with them, doing what is most appropriate. EI can help ~~us~~ civil servants to build relations, cooperation & change

Building & Inculcating EI in civil servants

1) Ethical training & workshops under

mission Karmayogi

-) Increased socialisation, especially to vulnerable section of society to understand their situations
-) Regular mid career & district level training in EI for people posted.
-) EI tests and assessment using case study to evaluate civil servants' performance
-) Feedback loop from public to civil servants through portals to ensure civil servants are cognizant of people's situations & demands.

Emotionally intelligent civil servants can ensure they break the ~~status~~ chains of rigidity & become agents of change by going the extra mile for public welfare.

Feedback

(For OFFICE use only)

	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

Q.5) a) The challenges posed by the corporate sector's impact on climate, environmental sustainability, and living conditions has highlighted the need for responsible and inclusive business practices. In this direction, the contemporary discourse on corporate governance is emphasizing the interconnectedness of environmental, social, and governance (ESG) factors. Evaluate the ESG framework in equipping the corporate world with the capabilities to fulfill its social roles and responsibilities.
(10 marks, 150 words)

जलवायु, पर्यावरणीय स्थिरता और रहने की स्थिति पर कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों ने जिम्मेदार और समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस दिशा में, कॉर्पोरेट प्रशासन पर समकालीन चर्चा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारकों के अंतर्संबंध पर जोर दे रही है। कॉर्पोरेट जगत को अपनी सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमताओं से लैस करने में ईएसजी ढांचे का मूल्यांकन कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

The current method of production by corporates is driven by consumerism & 'profit at any cost' which has caused damage to environment (IPCC report), increased inequalities (Oxfam report), & lead to poor living conditions. The integrated ESG framework seeks to do away with this mode

ESG framework - to fulfill its social roles

- 1) ensures responsible capitalism through philanthropy - eg CSR Act.
- 2) leads to fulfilling the role as social uplifter & capacity enhances as social

aspect leads to care for vulnerable population

- 1) leads to proper utilisation of social & environmental resources preventing issues for others.
- 2) Reduce the waste generation as waste recycling happens, fulfilling the responsibilities of responsible players.
- 3) Good & ethical corporate governance leads to ethical decisions leading to ethical functioning, fulfilling the responsibilities of ~~ensuring~~ intergenerational equity.

ESG framework can ensure responsible industrialisation ensuring equal opportunities to all & a clean environment for all.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	⊙	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS

b) Uniform Civil Code (UCC) aims to create a common set of laws governing personal matters, such as marriage, divorce, inheritance, and adoption, irrespective of individuals' religious affiliations. In the context of the ongoing discourse on UCC in India, examine the challenges that arise when attempting to reconcile legal principles with diverse moral considerations. To what extent should the law be influenced by moral/religious principles? (10 marks, 150 words)

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उद्देश्य व्यक्तियों की धार्मिक संबद्धताओं के बावजूद, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट बनाना है। भारत में यूसीसी पर चल रही चर्चा के संदर्भ में, विभिन्न नैतिक विचारों के साथ कानूनी सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते समय उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। कानून किस हद तक नैतिक/धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होना चाहिए? (10 अंक, 150 शब्द)

UCC is a constitutional obligation and is moral reinforcing the constitutional value of equality & dignity by envisioning gender equal laws for both men and women on various grounds.

Given the importance & value attached to religion, UCC faces lot of challenges when attempted to reconcile with diverse moral considerations.

→ Against the constitutional morality of minority rights as envisioned under Article 29 & 30.

→ Homogenisation / Uniform UCC against the Indian moral of diversity.

→ attempts are seen as imposition of particular way of life on other diverse way of life - Eg Tribal resentment because they see it as an attempt to attack their culture

UCC can be implemented if we use moral & religious principles which are progressive in nature. The religious principle of education, reforms, Mohism which promote equality can be used to influence UCC. Ideas of rationality & dignity which all religions profess can be used to draft UCC.

However ~~use~~ religion's influence must end where orthodoxy begins. Orthodox beliefs & assumptions like Triple Talaq must not influence UCC debate.

Use of religion just like Rajni Ram Mohan Roy did during reformation can ensure reforms in Indian society to persuade people.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

Q.6) What does each of the following quotation mean to you?

निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके लिए क्या अर्थ है?

a) "When I do good, I feel good; when I do bad, I feel bad, and that is my religion" – Abraham Lincoln. (10 marks, 150 words)

"जब मैं अच्छा करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूँ, तो मुझे बुरा लगता है। यही मेरा धर्म है" – अब्राहम लिंकन (10 अंक, 150 शब्द)

The above quote by Abraham Lincoln shows the idea of moral conscience. It shows moral conscience as the guiding force for action, as a standard for right & wrong.

When we do good, it goes in line with inherent positive characters we have. Philosophers like Hume, Dewey have said there is enlightened beings within us. Thus doing good would be congruent with our morals, leading us to self actualisation. Seeing something good happening to others through our actions brings a sense of joy & well being to us.

Doing bad results in crisis of conscience and we feel bad because it goes against the scheme of innate goodness in us. Seeing someone suffer due to our actions creates guilt within us.

Eg. Hurting a puppy creates guilt within me

Therefore, just like a religion guides human behaviour, our need to feel good must guide our actions, therefore leading to good actions. Man is pain avoiding. To avoid pain, we must not do bad things & acts. This would help usher an orderly world which every religion sought to establish.

Abraham Lincoln's life was a personification of the above quote as he raised the banner against slavery because he felt good when he became reason for emancipation of slaves.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	ⓐ	ⓑ	ⓒ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



b) "Real change, enduring change, happens one step at a time." – Ruth Bader Ginsburg.

(10 marks, 150 words)

"वास्तविक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, एक समय में, एक कदम होता है।" – रूथ बेडर गिन्सबर्ग

(10 अंक, 150 शब्द)

The quote by Ruth Bader shows the importance of small incremental efforts on a sustained basis to bring in a real change. Just like single single drop of water can create an ocean, real change can happen with small efforts.

Rome was not built in a day
It takes time for great things to come up. Social reformation in India was not an overnight event. It took massive consistent efforts to ensure a minimum dignified life for people.

The sustained incremental efforts ensure that we are committed

to the goal of social change. It also motivates others to join as people were not overwhelmed by need for massive steps.

It took years for Swachh to take shape as it is today due to series evolution. Similarly changes in our character would only take place when we develop habits using small-small steps. It can begin with habit of waking early at 7:00 am for healthy life..

Indian PM personified this quote when he said "single step by every Indian can lead to 135 crore steps signifying a big leap." Thus collective efforts through small steps can ensure a big change.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	ⓐ	ⓑ	ⓒ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

c) "Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values"
- Ayn Rand. (10 marks, 150 words)

'खुशी चेतना की वह अवस्था है जो किसी के मूल्यों की उपलब्धि से अधिक है' - एयन रैंड।

(10 अंक, 150 शब्द)

Happiness is what every human desires. Inner happiness comes when one's mind is contented. Indian value system calls contentment (inner peace) as santosham.

When one achieves or lives through the values one espouses, he/she achieves self actualisation as per Maslow.

This gives immense happiness due to congruity in action & value.

Eg- I am happy when I help an old person cross road.

Happiness also comes from achievement of our values as we are seen as role models which increase our social esteem and prestige.

Eg- Gandhi as a role model of humility
Nelson Mandela as a role model of forgiveness

Living a life as per our values can be seen as achieving the unachievable as value based life is seen with great respect. It also ensures peace & well being as living with values reduces anxiety & tension. This all contributes to Happiness

Therefore a life of contentment, integrity, compassion can enable us to achieve happiness which increases our well being & our society's well being.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



Section - B

Q.7) Jiya is a first-year student studying political science in a metropolitan city. Jiya belongs to Viddhi, a village located in the state of Satya Pradesh. Even though Jiya is very fond of her ancestral home, she has limited knowledge about the socio-cultural aspects of the region.

One day, while talking to her father, Jiya expresses her desire to visit her ancestral place. Her father readily agrees, and advises Jiya to inform her paternal uncle, Suresh, who lives in Viddhi, about her travel plans. On the destined day, Jiya arrives at her village to a grand welcome organised by her uncle. Later in the day, Suresh informs Jiya that in the evening they were all to attend a marriage function in the village. At the function, while having dinner, Jiya noticed that a separate seating arrangement was being made for some people. Unlike others, these people were waiting for their meals sitting on the floor, at a substantial distance from the main dining area. This made Jiya curious. On enquiring, Alakh, a 15-year-old boy, told Jiya that the members of his communities were not allowed to sit on chairs in any public occasion in the village. Alakh also told Jiya that even though he did not like the idea of sitting down in front of his friends, his mother and father, both advised him to follow the norm. Jiya asked him as to why different treatment was meted out to some people despite belonging to the same place. Alakh informed Jiya that even though they all belonged to Viddhi, members of his communities lived in separate habitations; had separate wells; and even worshiped in separate places. He also told her that various prohibitions were put on them like they were not supposed to ride a horse as part of their wedding procession, not allowed to wear turbans, which was a common head gear for others etc. Upon returning from the function, Jiya talked to her uncle about the matter. Suresh told Jiya that it is an accepted practice in the region and it is not wise to question the age-old traditions.

Next day, while going to the market with her aunt, Jiya passes by the local government school. She at once recognized Alakh in the school uniform. To her surprise, instead of studying inside with other students, he, along with some other students, was sweeping the school corridor. While Jiya was perplexed, her aunt passed it off as a routine affair and told her that it was not out of ordinary for the likes of Alakh to do such jobs.

Though Jiya left for her home in a few days, the incidents in Viddhi left an indelible mark on her psyche. As a political science student, Jiya realised that such practices and traditions were a blatant violation of an individual's rights. However, what she did not understand was the reasons behind overt acceptance of such practices by the society.

The things witnessed by Jiya at Viddhi are not isolated incidents, but a part of larger systematic cycle of exclusion, and marginalisation. Such incidents are commonplace in many parts of the country even today.

a) Discuss the role of various stakeholders in checking such biases and building an egalitarian order.

b) Why do such discriminatory practices continue in the society? (20 marks, 250 words)

जिया एक महानगरीय शहर में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही प्रथम वर्ष की छात्रा है। जिया सत्य प्रदेश राज्य में स्थित एक गाँव विधि से ताल्लुक रखती हैं। भले ही जिया को अपने पैतृक घर से बहुत प्यार है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में सीमित जानकारी है।

एक दिन, जिया अपने पिता से बात करते हुए अपने पैतृक स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त करती है। उसके पिता तुरंत सहमत हो जाते हैं, और जिया को सलाह देते हैं कि वह अपने मामा, सुरेश, जो विधि में रहते हैं, को अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में सूचित करें। नियत दिन पर, जिया अपने चाचा द्वारा आयोजित एक भव्य स्वागत के लिए अपने गाँव पहुंचती है। बाद में दिन में, सुरेश ने जिया को सूचित किया कि शाम को वे सभी गाँव में एक विवाह समारोह में शामिल होने वाले थे। समारोह में डिनर करते वक्त जिया ने देखा कि कुछ लोगों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जा रही थी। दूसरों के विपरीत, ये लोग मुख्य भोजन क्षेत्र से काफी दूरी पर, फर्श पर बैठकर अपने भोजन का इंतजार कर रहे थे। इससे जिया

को उत्सुकता हुई. पूछताछ करने पर, 15 वर्षीय लड़का अलख ने जिया को बताया कि उसके समुदाय के सदस्यों को गाँव में किसी भी सार्वजनिक अवसर पर कुर्सियों पर बैठने की अनुमति नहीं है। अलख ने जिया को यह भी बताया कि भले ही उसे अपने दोस्तों को उसके माता-पिता के सामने बैठने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे आदर्श का पालन करने की सलाह दी। जिया ने उनसे पूछा कि एक ही जगह के होने के बावजूद कुछ लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। अलख ने जिया को सूचित किया कि भले ही वे सभी विधि के थे लेकिन उसके समुदाय के सदस्य अलग बस्तियों में रहते हैं, अलग कुएँ हैं, और अलग पूजा पूजा स्थल भी हैं। उन्होंने उसे यह भी बताया कि उन पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जैसे कि उन्हें अपनी शादी की बारात में घुड़सवारी नहीं कर सकते, पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, जो अन्य लोगों के लिए यह एक आम पहनावा था आदि। समारोह से लौटने पर, जिया इस मामले में उसके चाचा से बात की। सुरेश ने जिया से कहा कि यह क्षेत्र में एक स्वीकृत प्रथा है और सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाना बुद्धिमानी नहीं है।

अगले दिन, अपनी मौसी के साथ बाजार जाते समय जिया स्थानीय सरकारी स्कूल के पास से गुजरती है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म में अलख को तुरंत पहचान लिया। उसे आश्चर्य हुआ, जब वह अन्य छात्रों के साथ अंदर पढ़ने के बजाय, कुछ अन्य छात्रों के साथ, स्कूल के गलियारे में झाड़ू लगा रहा था। जबकि जिया हैरान थी, उसकी चाची ने इसे एक नियमित प्रथा बताया और उससे कहा कि अलख जैसे लोगों के लिए ऐसी नौकरी करना सामान्य प्रथा से अलग नहीं है। हालाँकि जिया कुछ ही दिनों में अपने घर चली गई, लेकिन विधि की घटनाओं ने उसके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी। एक राजनीति विज्ञान की छात्रा के रूप में, जिया को एहसास हुआ कि ऐसी प्रथाएँ और परंपराएँ किसी व्यक्ति के अधिकारों का घोर उल्लंघन थीं। हालाँकि, वह यह नहीं समझ पाई कि समाज द्वारा ऐसी प्रथाओं को खुलेआम स्वीकार किए जाने के पीछे क्या कारण हैं।

विधि में जिया ने जो कुछ देखा, वह अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि बहिष्कार और हाशिए पर जाने के बड़े व्यवस्थित चक्र का हिस्सा हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी ऐसी घटनाएँ आम हैं।


a) ऐसे पूर्वाग्रहों को रोकने और समतावादी व्यवस्था के निर्माण में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

b) समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाएँ क्यों जारी हैं?

(20 अंक, 250 शब्द)

The above case study shows the prevalence of caste based exclusion and ghettoisation inspite constitution guaranteeing Right to Equality under Article 14. This shows the gap b/w letter and spirit of constitutional Morality leading to denial of dignity for people.

Stakeholders



ethical issues

- 1) Denial of dignity to people, seeing them as means to an end.
- 2) Violation of constitutional Morality of Equality
- 3) Lack of equal opportunities to develop their capabilities
- 4) Group think among residents leading to such practices

④ State ┌ Police
├ legislature
└ Judiciary

- 1) Legislature to make stringent laws with supervisory mechanisms pursuing such exclusions.
- 2) Judiciary using PLs & activism taking suo moto cognisance & passing judicial decrees.
- 3) Police to investigate allegations of exclusion & bring perpetrators to justice system.
- 4) Local self government to have joint sittings of gram sabhas to politically & socially educate villagers.

b) Such discriminatory practices continue today because Indian society is a society in transition - transitioning from tradition to modernity. Thus traditional institutions of exclusion

coexist with modern ideas of equality, liberty etc. It also persists because

- 1) desire to maintain the status quo by the beneficiaries of systems of exploitation
- 2) Difference in letter of law and implementation of law
- 3) Lack of political, constitutional & ethical literacy among people.
- 4) Evolution of discriminatory practices to new forms - eg caste discrimination in IITs
- 5) Associated with identity of people, thus difficult to eradicate.

The reformation through our scriptures showing equality, humans as an end in themselves can be good tools of persuasion to make society do away with such patterns of exclusion. Similar approach done in Rajasthan where now dalits ride horses for marriage which was prohibited earlier.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



Q.8) Pratap is a data engineer working in ABC Infocom. Pratap is a sincere employee who is liked equally by his superiors, colleagues, and subordinates. One day, during the lunch hour, a few colleagues were discussing a news item. There was a rally/parade in support of the LGBTQIA+ community which was to be held on the coming Sunday. While the news item was a matter of intrigue and fun for all, Pratap was sensitive about the issue. He explained to his colleagues the importance of understanding the demands of the LGBTQIA+ for equal civil rights as enjoyed by others. Kamal, a colleague of Pratap, believed such tendencies are not in the favour of the traditional values of the society. Another employee, Sushma, said that she has heard some experts on various news channel talking about how the demands being raised by the LGBTQIA+ community are against the laws of nature. Bhanu, the sales team manager, too agreed with the majority opinion; Bhanu said that his parents believe that the inclinations of LGBTQIA+ people are a manifestation of mental illness. Pratap's reasoning in favour of equal rights for all was of no consequence to his colleagues who seemed to have a rigid attitudinal build up against the community as a whole.

On the designated day when the rally was to take place, Kamal was watching the coverage of the parade live from his home. To his astonishment, he saw Pratap in the LGBTQIA+ rally. Next day at the office, when Kamal told Pratap that he saw him participating in the parade, Pratap agreed, and told Kamal that he was gay. After this incident Pratap began to see visible changes in the behaviour of not only his colleagues and subordinates but also the management of the office. While earlier all pestered Pratap to be present for various official and personal occasions, now he increasingly felt unwanted. Even his colleagues started taking their lunch separately. Pratap was earlier respected and revered by all for his sincerity and dedication. But now his professional qualities were overlooked and he became an object of amusement for all. He noticed that people started calling him by different names which he realized were a slur on his personality.

Matters came to head when Pratap was overlooked for promotion. Earlier, Pratap's superiors on various occasions had told him that his good work has benefitted the organization immensely and he was due for promotion after the next appraisal. Therefore, this supersession came as a rude and disappointing shock to Pratap, and he fell into a mire of self-doubt and loathing. The conditions came to such a pass that, Pratap, who was earlier a happy go lucky, caring, and a self-aware person, started remaining depressed.

- What are the qualities lacked by the colleagues and superiors of Pratap?
 - What could be the possible reasons behind the negative attitude of office employees towards LGBTQIA+ community?
 - As a friend of Pratap, what advice will you give him?
- (20 marks, 250 words)

प्रताप एबीसी इन्फोकॉम में कार्यरत एक डेटा इंजीनियर हैं। प्रताप एक ईमानदार कर्मचारी है जिसे उसके वरिष्ठ, सहकर्मी और अधीनस्थ समान रूप से पसंद करते हैं। एक दिन, दोपहर के भोजन के समय, कुछ सहकर्मी एक समाचार पर चर्चा कर रहे थे। LGBTQIA+ समुदाय के समर्थन में एक रैली थी जो आने वाले रविवार को होनी थी। जबकि समाचार सभी के लिए कौतूहल और मनोरंजन का विषय था, प्रताप इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील थे। उन्होंने अपने सहयोगियों को दूसरों के समान समान नागरिक अधिकारों के लिए LGBTQIA+ की मांगों को समझने का महत्व समझाया। प्रताप के सहकर्मी कमल का मानना था कि ऐसी प्रवृत्तियों समाज के पारंपरिक मूल्यों के पक्ष में नहीं हैं। एक अन्य कर्मचारी, सुषमा ने कहा कि उन्होंने विभिन्न समाचार चैनलों पर कुछ विशेषज्ञों को यह बात करते हुए सुना है कि कैसे LGBTQIA+ समुदाय द्वारा उठाई जा रही मांगें प्रकृति के नियमों के खिलाफ हैं। सेल्स टीम मैनेजर भानु भी बहुमत की राय से सहमत थे; भानु ने कहा कि उनके माता-पिता का मानना है कि LGBTQIA+ लोगों का झुकाव मानसिक बीमारी का प्रकटीकरण है। सभी के लिए समान अधिकारों के पक्ष में प्रताप का तर्क उनके सहयोगियों के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जो समग्र रूप से समुदाय के खिलाफ एक कठोर रवैया रखते थे।

निर्धारित दिन जब रैली होनी थी, कमल अपने घर से रैली का लाइव कवरेज देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने प्रताप को LGBTQIA+ रैली में देखा। अगले दिन कार्यालय में जब कमल ने प्रताप को बताया कि उसने उसे परेड में भाग लेते देखा है, तो प्रताप सहमत हो गया और उसने कमल को बताया कि वह समलैंगिक है। इस घटना के बाद प्रताप को न केवल अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों बल्कि कार्यालय के प्रबंधन के व्यवहार में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा। जबकि पहले सभी लोग प्रताप को विभिन्न आधिकारिक और व्यक्तिगत अवसरों पर उपस्थित रहने के लिए परेशान करते थे, अब वह स्वयं को अवांछित महसूस करने लगे। यहाँ तक कि उनके सहकर्मी भी अपना दोपहर का भोजन अलग करने लगे। प्रताप पहले अपनी ईमानदारी और समर्पण के कारण सभी का आदर और सम्मान करते थे। लेकिन अब उनके पेशेवर गुणों को नजरअंदाज कर दिया गया और वह सभी के लिए मनोरंजन की वस्तु बन गये। उन्होंने देखा कि लोग उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाने लगे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके व्यक्तित्व पर कलंक है। मामला तब तूल पकड़ गया जब पदोन्नति के लिए प्रताप की अनदेखी की गई। इससे पहले, विभिन्न अवसरों पर प्रताप के वरिष्ठों ने उन्हें बताया था कि उनके अच्छे काम से संगठन को काफी फायदा हुआ है और अगले मूल्यांकन के बाद उनकी पदोन्नति होनी है। इसलिए, यह अधिक्रमण प्रताप के लिए एक कठोर और निराशाजनक आघात के रूप में आया, और वह आत्म-संदेह और घृणा के दलदल में गिर गया। स्थितियाँ ऐसी आ गई कि प्रताप, जो पहले खुशमिजाज, देखभाल करने वाला और आत्म-जागरूक व्यक्ति था, उदास रहने लगा।


a) प्रताप के सहकर्मियों और वरिष्ठों में किन गुणों की कमी है?

b) LGBTQIA+ समुदाय के प्रति कार्यालय कर्मचारियों के नकारात्मक रवैये के पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

c) प्रताप के मित्र होने के नाते आप उसे क्या सलाह देंगे?

(20 अंक, 250 शब्द)

The case study shows the issue of negative attitudes and perceptions towards LGBTQIA+ is homophobia. Homophobia has become a new form of exclusion and discrimination, preventing person from enjoying their lives.



- a) The exclusion and discriminatory treatment show important ethical qualities lacked by Pratap's colleagues & superiors.
- 1) Lack of sympathy - they aren't able to see how distressed Pratap is
 - 2) Lack of empathy - unable to feel how Pratap would have been feeling
 - 3) Denial of care - not respecting Pratap's unique position.
 - 4) Absence of reason - irrational grounds by seniors and colleagues to discriminate LGBTIA
 - 5) No reverence for Constitutional Morality - as all of them violate right to Equality and Right to life for Pratap.

b) The reasons behind negative attitude of office employees towards LGBTQIA+ are due to .

- 1) Negative perception and image of LGBTQIA+ through popular culture like movies, showing them as 'hijras'
- 2) Family influencing thoughts of employees by feeding in negative perception.
- 3) Information asymmetry regarding LGBTQIA+ leads to people reading up stories and ideas regarding LGBTQIA+ community.
- 4) Reduced socialisation with LGBTQIA+ due to their marginalisation has led to reduced exposure of office employees with LGBTQIA+ people

c) As a friend, I will initially console Prateep, hear out his issues and let him open up providing a safe space.

After listening, I would give the following advice

- 1) Taking a few days off to declutter the mind and feel fresh
- 2) Initiating talks with the superior to make workspace more pleasant
 - ↳ This can make company look ethically responsible leading to increased sales and profits due to goodwill
- 3) Sensitising his colleagues by talking to them and clearing all the myths.
- 4) Conducting workshops on sensitization to make work environment vibrant for LGBTQIA+ people

Thus perhaps must spearhead an initiative to make the workspace more inclusive & empathetic. This enabling environment can help others to open up making a virtuous cycle of growth.



Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

Q.9) Prachinmath is a pilgrim town nestled in the laps of Himalayas. The town is part of one of the border states of the country. It serves as the base for a highly revered and well-known pilgrimage undertaken by millions of people every year. The people of Prachinmath, who are largely from a close-knit community of Pahadi tribe, have lived in the area for several generations. The Pahadi people, since many generations, have developed a lifestyle which is integral to the ecosystem of Prachinmath. The traditional knowledge of the tribe passed from one generation to other have helped the people in living with the environment in a sustainable manner. The people of Prachinmath worshipped the local deity, and believed it to be their destiny to live in the region in a peaceful and harmonious way.

However, the increasing pace of unplanned development, uncontrolled religious tourism, creation of strategic infrastructure etc., in the contemporary times have fundamentally altered the minimalistic nature of relationship that the people of Prachinmath had with the local/fragile environment. Prachinmath Bachao Committee (PBC), a civil society organization of Pahadi tribals, has consistently opposed the unbridled and brazen exploitation of the resources of Prachinmath. They have through petitions, jan sabhas, nukkad nataks etc., highlighted the grave consequences of the unsustainable development model that the state and the Union governments were adopting for Prachinmath. However, their petitions had fallen on deaf ears. Moreover, the government justified the infrastructure creation in Prachinmath in order to cater to its strategic and religious significance.

The problems came to a head when the government decided to construct a tunnel in Prachinmath, in order to generate hydroelectricity. The PBC as well as prominent geologists of the country vehemently opposed the idea citing its negative impact upon the region. The scientific community was of the opinion that as Prachinmath sits on geological fault lines and is built on a debris of a landslide, any large-scale construction may cause irreparable damage to the environment. Nevertheless, the government went ahead with the project, constructing the tunnel in a record time, citing its necessity for the energy security of the country. Even many economists were of the opinion that increased energy capacity will help India curtail its import bill. Such steps were hailed by the government as the stepping stone of the country towards strategic autonomy.

The worst fears of the local and scientific communities came true when the houses in Prachinmath started showing large cracks. The reason for the crack, as found out after a detailed study, was attributed to the subsidence of land in Prachinmath. The sinking of the land, development of large cracks, collapsing of the buildings etc., caught the attention of social, electronic, and print media alike. Overnight, Prachinmath became the talk of the country. Even the international media highlighted the episode, and the existential threat that it posed to the local communities as well as the environment. The state and Union governments swung into action and formed an expert committee, comprising of scientists, bureaucrats, NDRF/SDRF personnel etc., to look into the matter. The committee advised the government to evacuate Prachinmath completely, as the sinking of the land was continuing. Working on the recommendations of the committee, government prepared a detailed resettlement and rehabilitation plan for the people of Prachinmath.

The Pahadi people, who squarely blamed the government for the crisis, felt cheated by the actions of the government and refused to evacuate from Prachinmath, the place of their ancestors.

- What are the various conflicting interests in the above case study.
- As a DM of the district in which Prachinmath falls, how will you convince the people to evacuate from the area?
- What can we do to avoid such situations in the future.

(20 marks, 250 words)

प्राचीनमठ हिमालय की गोद में बसा एक तीर्थ नगर है। यह शहर देश के सीमावर्ती राज्यों में से एक का हिस्सा है। यह हर साल लाखों लोगों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक पूजनीय और प्रसिद्ध तीर्थयात्रा के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता है। प्राचीनमठ के लोग, जो मुख्यतः पहाड़ी जनजाति के घनिष्ठ समुदाय से हैं, कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। पहाड़ी लोगों ने, कई पीढ़ियों से, एक ऐसी जीवन शैली विकसित की है जो प्राचीनमठ के पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। जनजाति का पारंपरिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने से लोगों को पर्यावरण के साथ टिकाऊ तरीके से रहने में मदद मिली है। प्राचीनमठ के लोग स्थानीय देवता की पूजा करते थे, और मानते थे कि इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना उनकी नियति है।

हालाँकि, समकालीन समय में अनियोजित विकास, अनियंत्रित धार्मिक पर्यटन, रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि की बढ़ती गति ने प्राचीनमठ के लोगों के स्थानीय/संवेदनशील पर्यावरण के साथ संबंधों की न्यूनतम प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया है। पहाड़ी आदिवासियों का एक नागरिक समाज संगठन, प्राचीनमठ बचाओ समिति (पीबीसी) ने प्राचीनमठ के संसाधनों के बेलगाम और खुलेआम दोहन का लगातार विरोध किया है। उन्होंने याचिकाओं, जन सभाओं, नुककड़ नाटकों आदि के माध्यम से उस अस्थिर विकास मॉडल के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला है जिसे राज्य और केंद्र सरकारें प्राचीनमठ के लिए अपना रही हैं। हालाँकि, उनकी याचिकाएँ अनसुनी कर दी गईं। इसके अलावा, सरकार ने अपने रणनीतिक और धार्मिक महत्व को पूरा करने के लिए प्राचीनमठ में बुनियादी ढांचे के निर्माण को उचित ठहराया।

समस्याएँ तब सामने आईं जब सरकार ने पनबिजली उत्पन्न करने के लिए प्राचीनमठ में एक सुरंग बनाने का निर्णय लिया। पीबीसी के साथ-साथ देश के प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर इसके नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए इस विचार का पुरजोर विरोध किया। वैज्ञानिक समुदाय की राय थी कि चूँकि प्राचीनमठ भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखाओं पर स्थित है और भूस्खलन के वाले क्षेत्रों पर बना है, इसलिए किसी भी बड़े पैमाने पर निर्माण से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। फिर भी, सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता का हवाला देते हुए, रिकॉर्ड समय में सुरंग का निर्माण करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया। यहां तक कि कई अर्थशास्त्रियों की भी राय थी कि ऊर्जा क्षमता बढ़ने से भारत को अपने आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा इस तरह के कदमों को देश की रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में पहला कदम बताया गया।

स्थानीय और वैज्ञानिक समुदायों की सबसे भयावह आशंका तब सच साबित हुई जब प्राचीनमठ के घरों में बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। विस्तृत अध्ययन के बाद पता चला कि दरार का कारण प्राचीनमठ में भूमि का धंसना बताया गया है। भूमि के धंसने, से बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने, इमारतों के ढहने आदि ने सामाजिक, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ध्यान समान रूप से खींचा। रातों-रात प्राचीनमठ देश भर में चर्चा का विषय बन गया। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस प्रकरण और स्थानीय समुदायों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए अस्तित्व संबंधी खतरे को उजागर किया। राज्य और केंद्र सरकारें हरकत में आईं और इस मामले को देखने के लिए वैज्ञानिकों, नौकरशाहों, एनडीआरएफ/एसडीआरएफ कर्मियों आदि को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने सरकार को प्राचीनमठ को पूरी तरह खाली कराने की सलाह दी, क्योंकि भूमि का धंसना जारी था। समिति की सिफारिशों पर काम करते हुए, सरकार ने प्राचीनमठ के लोगों के लिए एक विस्तृत विस्थापन और पुनर्वास योजना तैयार की।

पहाड़ी लोग, जिन्होंने संकट के लिए सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराया था, सरकार के कार्यों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और उन्होंने अपने पूर्वजों के स्थान प्राचीनमठ को खाली करने से इनकार कर दिया।

a) उपरोक्त केस स्टडी में विभिन्न परस्पर विरोधी हित क्या हैं?

b) जिस जिले में प्राचीनमठ पड़ता है, वहां के डीएम के रूप में आप लोगों को इलाका खाली करने के लिए कैसे मनाएंगे?

c) भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

(20 अंक, 250 शब्द)

प्राचीनमठ हिमालय की गोद में बसा एक तीर्थ नगर है। यह शहर देश के सीमावर्ती राज्यों में से एक का हिस्सा है। यह हर साल लाखों लोगों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक पूजनीय और प्रसिद्ध तीर्थयात्रा के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता है। प्राचीनमठ के लोग, जो मुख्यतः पहाड़ी जनजाति के घनिष्ठ समुदाय से हैं, कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। पहाड़ी लोगों ने, कई पीढ़ियों से, एक ऐसी जीवन शैली विकसित की है जो प्राचीनमठ के पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। जनजाति का पारंपरिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने से लोगों को पर्यावरण के साथ टिकाऊ तरीके से रहने में मदद मिली है। प्राचीनमठ के लोग स्थानीय देवता की पूजा करते थे, और मानते थे कि इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना उनकी नियति है।

हालाँकि, समकालीन समय में अनियोजित विकास, अनियंत्रित धार्मिक पर्यटन, रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि की बढ़ती गति ने प्राचीनमठ के लोगों के स्थानीय/ संवेदनशील पर्यावरण के साथ संबंधों की न्यूनतम प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया है। पहाड़ी आदिवासियों का एक नागरिक समाज संगठन, प्राचीनमठ बचाओ समिति (पीबीसी) ने प्राचीनमठ के संसाधनों के बेलगाम और खुलेआम दोहन का लगातार विरोध किया है। उन्होंने याचिकाओं, जन सभाओं, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से उस अस्थिर विकास मॉडल के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला है जिसे राज्य और केंद्र सरकारें प्राचीनमठ के लिए अपना रही हैं। हालाँकि, उनकी याचिकाएँ अनसुनी कर दी गईं। इसके अलावा, सरकार ने अपने रणनीतिक और धार्मिक महत्व को पूरा करने के लिए प्राचीनमठ में बुनियादी ढांचे के निर्माण को उचित ठहराया।

समस्याएँ तब सामने आईं जब सरकार ने पनबिजली उत्पन्न करने के लिए प्राचीनमठ में एक सुरंग बनाने का निर्णय लिया। पीबीसी के साथ-साथ देश के प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर इसके नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए इस विचार का पुरजोर विरोध किया। वैज्ञानिक समुदाय की राय थी कि चूँकि प्राचीनमठ भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखाओं पर स्थित है और भूस्खलन के वाले क्षेत्रों पर बना है, इसलिए किसी भी बड़े पैमाने पर निर्माण से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। फिर भी, सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता का हवाला देते हुए, रिकॉर्ड समय में सुरंग का निर्माण करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया। यहां तक कि कई अर्थशास्त्रियों की भी राय थी कि ऊर्जा क्षमता बढ़ने से भारत को अपने आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा इस तरह के कदमों को देश की रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में पहला कदम बताया गया।

स्थानीय और वैज्ञानिक समुदायों की सबसे भयावह आशंका तब सच साबित हुई जब प्राचीनमठ के घरों में बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। विस्तृत अध्ययन के बाद पता चला कि दरार का कारण प्राचीनमठ में भूमि का धंसना बताया गया है। भूमि के धंसने, से बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने, इमारतों के ढहने आदि ने सामाजिक, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ध्यान समान रूप से खींचा। रातों-रात प्राचीनमठ देश भर में चर्चा का विषय बन गया। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस प्रकरण और स्थानीय समुदायों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए अस्तित्व संबंधी खतरे को उजागर किया। राज्य और केंद्र सरकारें हरकत में आईं और इस मामले को देखने के लिए वैज्ञानिकों, नौकरशाहों, एनडीआरएफ/एसडीआरएफ कर्मियों आदि को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने सरकार को प्राचीनमठ को पूरी तरह खाली कराने की सलाह दी, क्योंकि भूमि का धंसना जारी था। समिति की सिफारिशों पर काम करते हुए, सरकार ने प्राचीनमठ के लोगों के लिए एक विस्तृत विस्थापन और पुनर्वास योजना तैयार की।

पहाड़ी लोग, जिन्होंने संकट के लिए सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराया था, सरकार के कार्यों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और उन्होंने अपने पूर्वजों के स्थान प्राचीनमठ को खाली करने से इनकार कर दिया।

- उपरोक्त केस स्टडी में विभिन्न परस्पर विरोधी हित क्या हैं?
- जिस जिले में प्राचीनमठ पड़ता है, वहां के डीएम के रूप में आप लोगों को इलाका खाली करने के लिए कैसे मनाएंगे?
- भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

(20 अंक, 250 शब्द)

The case study shows the event of land sinking and subsidence similar to that of Jodhpur in Uttarakhand leading to a fall in social well being of many people due evacuation and displacement.



- a) The case study presents multiple conflicting interests.
- b) Energy security or Environment security - whether to build tunnel for energy or secure environment by discarding tunnel building
- c) National security or Environment protection - secure national security by building road or protect environment by cancelling road.

a) Rights of Parades or

↓

No construction can uphold right to life for parade

Rights of non residents of Prachinath

↓

Constructions can ensure better tourism experience for non residents

a) Infrastructure creation

↓

necessary but at cost of environment

or protection of environment

↓

can lead to reduced infra creation

b)

Being a DM, it is my ~~strong~~ duty to protect the lives & welfare of Prachinath residents, thus trying my best to persuade them

I will use local leaders to educate people through door to door campaign regarding issue. The trust of local leaders can be used to evacuate people from their houses

- a) Use of temple establishment (priests & office bearers) as religion carries high reverence in India. Thus people would be ready to move out.
- b) Use of data of scientists to explain people of consequences of not moving out.
- c) Assurance from state govt given to people to ensure proper & fair rehabilitation. This increases legitimacy & trust in evacuation process.
- d) Helping the residents through volunteer cadres to help them shift unimportant belongings to ease the process of evacuation.
- e) To avoid such situations, multiple actions are required.

- 1) Preventing encroachment and construction on debris area by demarcating such areas through maps.
- 2) Stopping construction in places where carrying capacity reached (M K Mishra committee)
- 3) Proper EIA and data led decision making to predict consequences of such actions
- 4) Land titling & recording to prevent people from constructing in future
- 5) Tourists controlled through restricted & pass based entry.

A long term vision & strategic planning can ensure such unwanted don't happen enabling right to dignified & a sustainable life for all.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.

Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	
-------------	--



Q.10) Bihar is a state in the Northern part of the country. Prohibition laws in the state completely ban the storage, possession, sale, and consumption of liquor in any form. Despite the ban, the liquor mafia in the state has succeeded in supplying spurious liquor through various illegal dens. The activities of liquor mafia flourish under the nose of both the civil administration and the police department. Many Civil Society Organizations, women organizations etc., on numerous occasions complained to the authorities about the illegal production, sale, and consumption of liquor, but their complaints have fallen on deaf ears, and no substantial action was taken by the government to curb the menace.

As fate would have it, one day there was an unfortunate incident when a large group of fifty construction labourers died after consuming spurious liquor from an illegal den being operated by the mafia. Many of the victims were sole bread winners of their families. While the state was clear on its position that consuming liquor in the state was an illegal activity that warrants no sympathy or compensation (for the next of kin) from the government, families of the victims and also many CSOs were demanding compensation for the families of the deceased construction laborers.

The incident got both national and international coverage in print, electronic, as well as the social media. The pressure on the state government was mounting to amicably resolve the issue.

Anjali is posted as the Joint Secretary in the Secretariat. The CM has asked her to create a detailed report on how should the state government handle this crisis.

a) Under the given circumstances, what measures should Anjali recommend to handle the above crisis.

b) Critically evaluate the decision of state government to not compensate the victims of spurious liquor. (20 marks, 250 words)

बिहार देश के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। राज्य में शराबबंदी कानून किसी भी रूप में शराब के भंडारण, कब्जे, बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध के बावजूद राज्य में शराब माफिया विभिन्न अवैध अड्डों के माध्यम से नकली शराब की आपूर्ति करने में सफल रहे हैं। शराब माफिया की गतिविधियां नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों की नाक के नीचे चलती हैं। कई नागरिक समाज संगठनों, महिला संगठनों आदि ने कई मौकों पर अधिकारियों से शराब के अवैध उत्पादन, बिक्री और खपत के बारे में शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया, और सरकार द्वारा खतरे को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

जैसा कि भाग्य को मंजूर था, एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब माफिया द्वारा संचालित एक अवैध अड्डे से जहरीली शराब पीने के बाद पचास निर्माण मजदूरों के एक बड़े समूह की मृत्यु हो गई। पीड़ितों में से कई अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। जबकि राज्य अपनी स्थिति पर स्पष्ट था कि राज्य में शराब का सेवन एक अवैध गतिविधि है जिसके लिए किसी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, पीड़ितों के परिवार और CSOs भी मृत निर्माण मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे।

इस घटना को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही सोशल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिला। राज्य सरकार पर इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का दबाव बढ़ रहा था।

अंजलि सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। सीएम ने उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है कि राज्य सरकार को इस संकट से कैसे निपटना चाहिए।

a) दी गई परिस्थितियों में अंजलि को उपरोक्त संकट से निपटने के लिए क्या उपाय सुझाने चाहिए?

b) जहरीली शराब के पीड़ितों को मुआवजा न देने के राज्य सरकार के निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (20 अंक, 250 शब्द)

The case study shows lack of ethics among people and brazen disregard for human lives by producing spurious alcohol. It also shows the issue of mafia-bureaucrat nexus leading to fall in social well being of people.



- a) In the given circumstances, Shri Arjuna should recommend a multi-pronged strategy to handle the crisis.
- Reducing the demand for alcohol by making TV campaigns similar to "No Smoking" of cigarettes. Also harmful effects picture on brands must be pasted similar to cigarettes to reduce the consumption.
 - Increasing the tax of alcohol to make it beyond the reach of people.
 - New avenues and business opportunities like in food processing industries to provide an attractive alternative for business to divert from liquor production - Eg Mahua drinks.
 - Information awareness & campaigns by ASHA workers & civil society to make

people understand ill effects of drinking, especially spurious alcohol.

a) Use of school curriculum through NEP to equip students to persuade their fathers against alcoholism.

a) Strict punishment to crimes committed due to drinking.

b) The state government's decision do not compensate victims has both positives & negatives.

It is justified because individuals are responsible for the acts they commit. It was an action under free will, therefore it is unfair to waste resources of state for a mistake committed knowingly.

It will also deter future consumption of liquor as people would be cautious due to current crisis.

However, the state government can take a lenient stand. Given that labourers are marginalised people, compassion and care must take precedence over rule.

State has a duty to ensure welfare of all. Thus compensation must be given for their welfare.

The fact that labourers might have not known it was specious of labourers paying the price for greed of liquor mafia seems unfair.

The govt must reduce the demand of demented goods through social campaigning to ensure that their supply reduction policies are quite effective.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table.			
Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



Q.11) Kamlesh is a civil servant who has been recently posted as Additional Chief Secretary in the education department of the state. Kamlesh has a meticulous service record and is well known for his honesty, and a no-nonsense attitude. After joining the new department, the first major task before Kamlesh was to conduct the recruitments for the post of lecturers in government schools. The posts were lying vacant for a long time, and the government wanted to fill up the vacancies without further delay as it was one of the poll promises made by the present government. The recruitment process took place successfully under the supervision of Kamlesh. The concerned minister congratulated Kamlesh and informed him that the appointment letters will be allocated to the successful candidates in a ceremony which will be presided by the CM himself. Kamlesh was happy that his work was getting recognition at the highest level. One day, Kamlesh was sitting in his office when his secretary brought him a letter from a leading investigative journalist of the state. The letter dealt with the recently conducted recruitment of the lecturers. Kamlesh was shocked at the content of the letter. The investigative journalist had alleged that the question paper of the exam was leaked to a few successful candidates, who had also forged their documents to appear in the exam. The letter also highlighted a nexus of middlemen, politicians, and civil servants who facilitate such illicit practices. Moreover, the investigative journalist had also attached credible proofs. Kamlesh corroborated the facts of the letters from his own sources and found the allegations to be true prima facie. Since the matter was serious and warranted immediate action, Kamlesh brought the matter to the notice of his minister. To his surprise, the minister asked him to sit over the matter for some time. Minister reasoned that bringing out this matter will bring ignominy not only to the department but also to the government. Further, the minister reasoned that cancelling the whole recruitment process will be detrimental for the education department, schools etc; also, the sincere and honest candidates who have invested a lot of time and money for preparation may also get affected negatively. He also reminded Kamlesh that the participation of the CM has already been announced.

After leaving the minister's office, Kamlesh got a phone call from Minister's Personal Secretary (PS). The PS hinted to Kamlesh that the concerned candidates were closely connected to the ruling political party, and going against them may create professional troubles for Kamlesh. On the other hand, his cooperation in this matter, the PS assured, will not go unnoticed and will be handsomely rewarded.

Kamlesh had just settled in his new posting. He knows that going against the wish of the Minister may cause him his present posting. What was more, Kamlesh's father is undergoing treatment in a local hospital. A shunting out from the district would mean that his father would have to be left alone to fend for himself. Further, Kamlesh's wife Priya, also a bureaucrat, is posted in the Chief Minister's Office (CMO). Kamlesh realises that his actions will also have a bearing on her career as well.

- Bring out various ethical dilemmas faced by Kamlesh.
- Consider yourself in Kamlesh's position. What are the various options available to you?
- Critically evaluate each of the option listed by you.
- Which of the above option should Kamlesh adopt and why?

(20 marks, 250 words)

कमलेश एक सिविल सेवक हैं जिन्हें हाल ही में राज्य के शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है। कमलेश का सेवा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वह अपनी ईमानदारी और व्यावहारिक रवैये के लिए जाने जाते हैं। नए विभाग में आने के बाद कमलेश के सामने पहला बड़ा काम सरकारी स्कूलों में लेक्चरर पद पर भर्तियां कराना था। पद लंबे समय से खाली पड़े थे और सरकार बिना किसी देरी के रिक्तियों को भरना चाहती थी क्योंकि यह वर्तमान सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक था।

कमलेश की देखरेख में भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। संबंधित मंत्री ने कमलेश को बधाई दी और उन्हें सूचित किया कि सफल उम्मीदवारों को एक समारोह में नियुक्ति पत्र आवंटित किए जाएंगे जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम करेंगे। कमलेश खुश थे कि उनके काम को उच्चतम स्तर पर पहचान मिल रही है।

एक दिन, कमलेश अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी उनका सचिव उनके लिए राज्य के एक प्रमुख खोजी पत्रकार का पत्र लेकर आया। यह पत्र हाल ही में आयोजित व्याख्याताओं की भर्ती से संबंधित है। पत्र का मजमून देखकर कमलेश हैरान रह गये। खोजी पत्रकार ने आरोप लगाया था कि परीक्षा का प्रश्नपत्र कुछ सफल उम्मीदवारों के लिए लीक कर दिया गया था, जिन्होंने परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने दस्तावेज़ भी जाली बनाए थे। पत्र में बिचौलियों, राजनेताओं और सिविल सेवकों के गठजोड़ पर भी प्रकाश डाला गया है जो इस तरह की अवैध प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, खोजी पत्रकार ने विश्वसनीय सबूत भी संलग्न किए थे। कमलेश ने अपने स्रोतों से पत्रों के तथ्यों की पुष्टि की और आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। चूंकि मामला गंभीर था और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, इसलिए कमलेश ने मामले को अपने मंत्री के संज्ञान में लाया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब मंत्री ने उनसे मामले पर कुछ देर बैठने के लिए कहा। मंत्री ने तर्क दिया कि इस मामले को उजागर करने से न सिर्फ विभाग बल्कि सरकार की भी बदनामी होगी। इसके अलावा, मंत्री ने तर्क दिया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना शिक्षा विभाग, स्कूलों आदि के लिए हानिकारक होगा; इसके अलावा, सत्यनिष्ठ और ईमानदार उम्मीदवार जिन्होंने तैयारी के लिए बहुत समय और पैसा निवेश किया है, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कमलेश को यह भी याद दिलाया कि सीएम के शामिल होने की घोषणा पहले ही हो चुकी है।

मंत्री के कार्यालय से निकलने के बाद, कमलेश को मंत्री के निजी सचिव (पीएस) का फोन आया। पीएस ने कमलेश को संकेत दिया कि संबंधित उम्मीदवार सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से निकटता से जुड़े हुए हैं, और उनके खिलाफ जाने से कमलेश के लिए पेशेवर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर, पीएस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में उनके सहयोग पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा।

कमलेश अभी-अभी अपनी नई पोस्टिंग पर आए थे। वह जानते हैं कि मंत्री की इच्छा के विरुद्ध जाने पर उन्हें अपनी वर्तमान पोस्टिंग से हाथ धोना पड़ सकता है। और तो और, कमलेश के पिता का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिले से बाहर जाने का मतलब यह होगा कि उसके पिता को अपनी देखभाल के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, कमलेश की पत्नी प्रिया भी एक नौकरशाह हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में तैनात हैं। कमलेश को एहसास होता है कि उसकी हरकतों का असर उसके करियर पर भी पड़ेगा।

- कमलेश द्वारा सामना की गई विभिन्न नैतिक दुविधाओं को उजागर करें।
- अपने आप को कमलेश की स्थिति में समझें। आपके लिए विभिन्न विकल्प क्या उपलब्ध हैं?
- आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
- कमलेश को उपरोक्त में से कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों?

(20 अंक, 250 शब्द)

The case study shows the issue of erosion of ethics & values among educated people as rising clamour for success is leading people to choose 'shortcuts' and wrong paths. It also shows denial of justice for worthy students.



- a) ethical dilemmas faced:
- 1) Personal interest or professional integrity -
Should Kamlesh hide the matter for sake of his family or bring up the matter for professional integrity
 - 2) Personal well being vs societal well being -
By whistleblowing Kamlesh ensures societal well being and by remaining complacent he ensures his well being
 - 3) Rule of law or rule of party - whether to follow rule of law or the command of party
 - 4) Material well being or Mental well being -
if giving in to minister's demand, it can lead to Kamlesh's material well being but disturb mental well being due to crisis of conscience.

b) Options available were .

1. > Partnering with the journalist and bringing out the report through newspaper
2. > letting go of the matter and siding with the minister
3. > Setting up a committee for detailed investigation and sending the report directly to CM through my wife's connection with CMO .

c)

option 1 -

This option would prevent crisis of conscience within me and ensure a fair procedure of recruitment . It would be correct as per ideological approach as to my sense of duty to do . However, there

are chances of my well being reduced due to vendetta politics. Sensationalization of news can make me seem as persecuted, through allegations on my conduct.

Option 2

This would ensure my personal well being & it would reap best results for me. But it would show an erosion of my character & virtue. It would yield maximum harm to society as non eligible people might be running the institutions.

Option 3

This would be a rules based option and ensure data & findings of the committee. It follows the hierarchy of bureaucracy. Appealing to conscience of CM can help in addressing the issue. The problems include delay in process, depriving people their right

to good service delivery. CM can inform this to his party members leading to unstable politics against me.

d) Option III (3) is Hamlesh should choose

1) ensures data backed & empirical findings through a committee

2) possible scope of persuasion to CM

3) prevents crisis of conscience within Hamlesh.

4) upholds the sense of duty & ensures good impact on social welfare through good people in institutions

De-politization of bureaucracy & fair recruitment process is a hallmark of de-subjective justice which forms basis to any ethical & fair society.

Feedback

(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			



Q.12) XYZ is a premiere coaching institute located in Chatterjee Nagar locality of Himnagar. XYZ specialises in the coaching for medical and engineering entrance examination. The main office of the coaching, where the daily classes are conducted, is located in a congested locality, from where several other coaching institutes also operate.

One day, while classes were in session in the top floor of the building and some 200 odd students were in attendance, a fire broke out in the premises of XYZ coaching. The fire incident created a commotion among those present in the building. Everyone, in a state of confusion, started running helter-skelter. Some students rushed to the very narrow stairs. Many stumbled and fell, hurting themselves. The emergency exit plan of the building was not suitable to cater to the large number of students and staff. In order to save themselves from asphyxiation, some students broke the window of the classroom. However, in absence of a fire stairs they had to climb down using the balcony ledge. In the process, many students had a free fall and hurt themselves badly.

While two boys lost their life due to stampede caused while exiting the building, one girl got fatally injured while climbing down the ledge. The civil administration immediately started an audit of the building. Joseph is posted as the Municipal Commissioner of Himnagar. Chatarjee Nagar falls under his jurisdiction. Joseph has ordered an enquiry into the whole incident.

Coincidentally, Joseph's younger brother, Frank, is also a student of XYZ coaching. He was not present in the coaching during the fateful day. The owner of the XYZ coaching approaches Joseph and requests him to be lenient in the enquiry report. They propose that looking at the good track record of Frank they are willing to give him a scholarship to fund not only his coaching fees but also his graduation from any college in the country. They also promise that since Frank is a sincere student, they will dedicate their top faculty to ensure that Frank comes out with flying colours in the coming under graduate entrance examination.

Joseph knows that his brother has repeatedly failed in the entrance examinations earlier and a special focus will help him immensely. Also, Joseph himself was under student debt, which he was still paying in small instalments from his own salary. Recently married, and having risen from a poor family, Joseph has always worried about funding his brother's education.

a) Identify various ethical concerns in the case study.

b) You are a friend of Joseph. Joseph turns to you for advice. What advice will you give to Joseph and why?
(20 marks, 250 words)

XYZ एक प्रीमियर कोचिंग संस्थान है जो हिमनगर के चटर्जी नगर इलाके में स्थित है। XYZ मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण कोचिंग है। कोचिंग का मुख्य कार्यालय, जहां दैनिक कक्षाएं संचालित होती हैं, एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है, जहां से कई अन्य कोचिंग संस्थान भी संचालित होते हैं।


एक दिन, जब इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं चल रही थीं और लगभग 200 छात्र उपस्थित थे, XYZ कोचिंग के परिसर में आग लग गई। आग लगने की घटना से बिल्डिंग में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सभी असमंजस की स्थिति में इधर-उधर भागने लगे। कुछ छात्र बहुत संकरी सीढ़ियों की ओर भागे। कई लोग लड़खड़ाकर गिर पड़े, जिससे उन्हें चोट लगी। इमारत की आपातकालीन निकास बड़ी संख्या में छात्रों और कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं थी। खुद को दम घुटने से बचाने के लिए कुछ छात्रों ने कक्षा की खिड़की तोड़ दी। हालाँकि, आगे की सीढ़ियों के अभाव में उन्हें बालकनी के किनारे का उपयोग करके नीचे उतरना पड़ा। इस प्रक्रिया में, कई छात्र गिर गए और उन्हें गंभीर चोट लगी। इमारत से बाहर निकलते समय मची भगदड़ के कारण जहां दो लड़कों की जान चली गई, वहीं एक लड़की खिड़की से नीचे उतरते समय गंभीर रूप से घायल हो गई। नागरिक प्रशासन ने तुरंत इमारत का ऑडिट शुरू किया। जोसेफ हिमनगर के नगर आयुक्त के पद पर तैनात हैं। चटर्जी नगर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जोसेफ ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

संयोग से, जोसेफ का छोटा भाई, फ्रैंक भी XYZ कोचिंग का छात्र है। वह उस दिन कोचिंग में मौजूद नहीं था। XYZ कोचिंग का मालिक जोसेफ के पास जाता है और उससे जांच रिपोर्ट में नरमी बरतने का अनुरोध करता है। उनका प्रस्ताव है कि फ्रैंक के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वे न केवल उसकी कोचिंग फीस, बल्कि देश के किसी भी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के लिए भी उसे छात्रवृत्ति देने को तैयार हैं। वे यह भी वादा करते हैं कि चूंकि फ्रैंक एक ईमानदार छात्र है, इसलिए वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने शीर्ष संकाय को समर्पित करेंगे कि फ्रैंक आगामी स्नातक प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आए।

जोसेफ को पता है कि उसका भाई पहले भी प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार असफल हुआ है और विशेष फोकस से उसे काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा, जोसेफ स्वयं एक ऋण के अधीन था, जिसे वह अभी भी अपने वेतन से छोटी किस्तों में चुका रहा था। हाल ही में शादी हुई और एक गरीब परिवार से आने के कारण, जोसेफ हमेशा अपने भाई की शिक्षा के वित्तपोषण के बारे में चिंतित रहता है।

- a) मामले के अध्ययन में विभिन्न नैतिक चिंताओं की पहचान करें।
 b) आप जोसेफ के मित्र हैं। जोसेफ सलाह के लिए आपके पास आता है। आप जोसेफ को क्या सलाह देंगे और क्यों? (20 अंक, 250 शब्द)

The above case study shows the impact of breach violation of rules meant to protect the lives of people. This study is similar to recent incident of fire which broke out in Mukherjee Nagar in Delhi.



- a) ethical concerns.
- o) Denial of right to life to students as many students injured & lost their lives.
 - o) Precedence of greed over life as institute flouted rules to save cost.
 - o) Conflict of interest for Joseph as he has a personal interest & social interest conflicting with each other.
 - o) High cost of education, reducing accessibility of education for students from poor background like Joseph.
 - o) Attempts to corrupt the bureaucracy by offering bribes.

5) As friend to Joseph, I will give an advice which ensures Joseph does his duty wholeheartedly. No amount of beute and material pleasure can justify the loss of lives & threat to lives to the students.

Unaware of his brother joining the institute, he is not the same sure of losing his life which Joseph can't bear.

Therefore, Joseph must go ahead and submit the full & true report without any malpractice to the administration.


Joseph should do so because

- it is his duty to ensure welfare of people as an officer
- it ensures maximum benefit &

welfare to all.

I would provide alternative plans for Joseph to fund his brother's education and to rekindle his interest in studies, thus eliminating conflict of interest.

The Govt must ensure proper regulations and surveys of the institutes to ensure they abide by the rules to prevent such a painful incident happening again.



Feedback

(For OFFICE use only)

#	C	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

Mentor Feedback Questions

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Test Goal

- 1
- 2
- 3

Outcomes

-
-
-
-

Marking Scheme

Mark	Good	Average	Below average
10 Marker	3.75 – 5.0	3.0 – 3.5	< 3.0
15 Marker	5.75 – 7.0	4.0 – 5.5	< 4.0
✓	Key / Relevant Point		
✗	Vague / Irrelevant		


* Subject to change without prior notice.

Availing Mentorship - Now made easy & seamless via mentorship.forumias.com

Dear Students,

You can now avail Mentorship in both online & offline mode seamlessly. All you need to do is login to below URL and pick up a date and time and your Mentorship is scheduled at the designated time.

Visit the URL <https://mentorship.forumias.com> or Scan the QR code



When must you seek mentorship? When you are unable to fully comprehend the directions given by the evaluator in the MGP copy. A Mentor will help you understand the nuances of your evaluated MGP copy. He / She will also be able to make suggestions, if needed, on improvements that you could make.

If we are already doing well, a reinforcement from the Mentor will further assist us in following the right path. A Mentor may also be able to give valuable inputs with respect to time management, presentation, structure etc. He may recommend you clearly to work on content or may suggest you to take courses / read books in case he feels you lack content that may be quickly improved with a course at ForumIAS or elsewhere, or some study material.

To download topper's copies, visit the link <https://blog.forumias.com/testimonials>

Topper's Testimonials and Test Copies

CSE 2021 Topper's Testimonials and Test Copies

- CSE Rank 1, Shruti Sharma, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 5, Utkarsh Dwivedi, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 8, Ishita Rathi, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 9, Preetam Kumar, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 12, Yasharth Shekhar, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 14, Abhinav J Jain, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 17, Mehak Jain, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 19, Diksha Joshi, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 20, Arpit Chauhan, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 23, Ashish, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 24, Puspapati Sahitya, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 25, Shruti Rajlaxshmi, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 26, Utsav Anand, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 28, Mourya Bharadwaj Mantri, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 30, Naman Goyal, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 33, Jaspinder Singh, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 37, V Sanjana Simha, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 39, Vishal Dhakad, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 40, Kushal Jain, Download MGP Copies [Click Here](#)